



तुला राशि

वाले

वर्ष 2018 में

क्या उपाय करें...

क्या

न

करें...



क्या न करें वर्ष 2018 में

- * इस वर्ष लोगों पर अपना लादना आपके हित में नहीं रहेगा।
- * ताकत, जिद्द के बल पर वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है परंतु भोगा नहीं जा सकता।
- * मर्यादाओं का पालन करें।

क्या उपाय करें वर्ष 2018 में

स्वास्थ्य में सुधार के लिए

- * हर रोज नियमित सुबह-शाम गाय के घी का दीपक जलाकर दुर्गा अर्गला स्तोत्र का पाठ करें।
- * भूरी चींटियों को गेहूं या बाजरे का आटा बूरा मिलाकर डालें।
- * हर रोज नित्यकर्म से निवृत्त हो स्नानोपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर केसर अर्पित करें।

पारिवारिक सुख-शांति व बाधा निवारण के लिए

- * पारिवारिक सुख शांति के लिए साल में चार बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें।
- * प्रत्येक सोमवार को श्रद्धापूर्वक मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करें।
- * गरीब बच्चों को भोजन में मदद करें।

आर्थिक सुदृढ़ता के लिए

- * शिव सहस्रनाम का पाठ करें।
- * तांबे के सात चकौर टुकड़े विराने भूमि में दबाएं।
- * 700 ग्राम दूध मिट्टी के पात्र में डालरक अपने ऊपर से 7 बार उसारे और कुत्ते को पिला दें।
- * मीठे चावल व मीठे पराठे और लाल वस्त्र हर मंगलवार को गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें।

संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 13 मुखी रुद्राक्ष 3 दानें, गर्भ गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दानें लाल धागे में सोमवार के दिन शुभ महूर्त में धारण करें। स्वच्छता का ध्यान रखें।